



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02052023-245599
CG-MH-E-02052023-245599

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 279]
No. 279]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/VAISAKHA 12, 1945

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

मुंबई, 26 अप्रैल, 2023

फा. सं. CC/S&B/AND/2023-24/40.—सूचित किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की महासभा सोमवार, 19th जून 2023 को स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक भवन परिसर, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 (महाराष्ट्र) में अप्राह्न 3.00 बजे निम्नलिखित व्यवसाय के लिए आयोजित की जाएगी :

- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19(ग) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के केंद्रीय बोर्ड में चार निदेशकों का चयन करना।

निदेशकों के चुनाव पर विवरण

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की खंड(सी) धारा 19 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों की चार रिक्तियों को भरने के लिए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अध्याय V के अनुसार होने वाले चयन के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

- निदेशकों का चुनाव केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के पात्र शेयरधारकों द्वारा चुने गए निम्नलिखित चार निदेशकों की सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र से उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए किया जा रहा है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि
1	श्री बी. वेणुगोपाल	26.06.2020 से 25.06.2023
2	श्री गणेश नटराजन	26.06.2020 से 25.06.2023
3	श्री केतन एस विकमसे	26.06.2020 से 25.06.2023
4	श्री मृगांक एम. परांजपे	26.06.2020 से 25.06.2023

- शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों का कार्यकाल 26 जून, 2023 से 25 जून, 2026 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए होगा।
- शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र और वचन पत्र का प्रारूप सभी स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों के सचिवालय, बैंक के कॉर्पोरेट केंद्र में केंद्रीय बोर्ड सचिवालय और बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in अथवा <https://bank.sbi> → Investor Relations → General Meeting पर उपलब्ध है। विधिवत भरा हुआ नामांकन फॉर्म एवं घोषणा पत्र तथा वचन पत्र सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ 26 मई, 2023, शाम 05.00 बजे (समापन समय) तक अथवा उससे पूर्व बैंक के कॉर्पोरेट केंद्र, मुंबई में जमा किया जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर लिखा जाना जाना चाहिए:

"शेयरधारकों द्वारा निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म" अंकित कर निम्नलिखित पते पर भेज दी जाए :

महाप्रबंधक और सचिव, केंद्रीय बोर्ड,
भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र,
19वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड, मुंबई – 400 021

समापन समय के पश्चात प्राप्त नामांकन फॉर्म एवं घोषणा पत्र तथा वचन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- कोई भी शेयरधारक, जिसके पास बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में अपने अधिकार में पंजीकृत कम से कम 5000 गैर-देनदारी वाले शेयर (नामांकन दाखिल करने की तिथि को) हैं, या तो एकमात्र धारक के रूप में या संयुक्त रूप से रखे जाने पर पहले नामित धारक के रूप में और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 ए और 22 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के प्रावधानों के अंतर्गत अयोग्य नहीं है, चुनाव लड़ने के योग्य है।
- यदि वैध नामांकनों की संख्या चार से अधिक है, तो सोमवार, 19th जून, 2023 को स्टेट बैंक सभागार, स्टेट बैंक भवन परिसर, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 (महाराष्ट्र) में अपराह्न 3.00 बजे में आयोजित होने वाली शेयरधारकों की आम बैठक में चुनाव के लिए मतदान होगा।
- कोई भी शेयरधारक, केंद्र सरकार के अलावा 50 या अधिक शेयरों के साथ, अपने स्वयं के अधिकार में पंजीकृत, या तो एकमात्र धारक के रूप में या संयुक्त रूप से पहले नामित धारक के रूप में, बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए आम बैठक की तारीख से पहले और जो बैठक की तारीख को बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में कम से कम 50 शेयरों के साथ शेयरधारक बना रहता है, चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है।

टिप्पणी :-

(i) प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची

पात्र शेयरधारकों के लिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्चियों को बैंक के स्थानीय प्रधान कार्यालयों के मुख्य महाप्रबंधकों के सचिवालय और बैंक की वेबसाइट : www.sbi.co.in अथवा <https://bank.sbi> पर Investor Relations → Shareholder and Bondholder Information लिंक के अंतर्गत तथा निम्नलिखित कार्यालयों में भी उपलब्ध है:

- (i) शेयर और बांड विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र, 14वीं मंजिल, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400 021, टेलीफोन: 022-22740841 - 848
- (ii) मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, यूनिट: भारतीय स्टेट बैंक, अलंकित हाइट्स, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, ई/7, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055 टेलीफोन: 011-42541234, 7290071335

19th जून, 2023 को महासभा स्थल पर उपस्थिति पर्चियां भी उपलब्ध होंगी।

विधिवत निष्पादित प्रॉक्सी फॉर्म, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा अन्य प्राधिकार (जैसा लागू हो) के साथ, जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं, बैंक के शेयर और बांड विभाग, 14वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400 021 पर 6 जून, 2023 को शाम 5.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाने चाहिए।

(ii) अधिकृत प्रतिनिधि

शेयरधारक, एक कंपनी होने के नाते, यदि अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को महासभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करना चाहता है तो उसे संबंधित प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा जिसमें ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था, उक्त की सही प्रमाणित प्रतिलिपि बैंक के निम्नलिखित दो कार्यालयों में से किसी में भी, 9 जून, 2023, शाम 5.00 बजे तक अथवा उससे पूर्व जमा करनी चाहिए।

- (i) शेयर और बांड विभाग, 14वीं मंजिल, भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021.
- (ii) मुख्य महाप्रबंधक का सचिवालय, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय - मुम्बई मेट्रो, सिनर्जी, "सी 6", जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051.

कॉर्पोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड,
मुंबई - 400 021

दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./51/2023-24]

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

NOTICE

Mumbai, the 26th April, 2023

F. No. CC/S&B/AND/2023-24/40.—NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Monday, the 19th June, 2023 at “**State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai - 400021** (Maharashtra) at 3.00 p.m. to transact the following business:

1. To elect four Directors to the Central Board of the Bank under the provisions of Section 19(c) of State Bank of India Act, 1955.

Detailson Election of Directors

Details in respect of the election to be held as per Chapter V of the State Bank of India General Regulations, 1955 to fill the four vacancies of directors in the Central Board of the State Bank of India, under clause (c) section 19 of the State Bank of India Act, 1955 are as under:

- The election of Directors is being held to fill in the vacancies arising out of the retirement/resignation of the following four Directors elected by eligible Shareholders of the Bank, other than the Central Government.

Sr. No.	Name of the Director	Term
1	Shri B. Venugopal	26.06.2020 to 25.06.2023
2	Shri Ganesh Natarajan	26.06.2020 to 25.06.2023
3	Shri Ketan S Vikamsey	26.06.2020 to 25.06.2023
4	Shri Mrugank M. Paranjape	26.06.2020 to 25.06.2023

- The term of office of the Directors to be elected by the shareholders will be for a period of three years from 26th June, 2023 to 25th June, 2026.
- The Nomination form and the format of the Declaration & Undertaking to be submitted by Shareholders are available with the Secretariat of the Chief General Managers at all the Local Head Offices, the Central Board Secretariat at the Corporate Centre of the Bank and Bank's website www.sbi.co.in or <https://bank.sbi> →Investor Relations→ General Meeting. The duly filled up Nomination form and Declaration & Undertaking should be submitted with all connected documents in a sealed envelope to the Bank at its Corporate Centre, Mumbai, on or before 26th May, 2023 by 05.00 pm (closing time). The envelope should be super-scribed: "NOMINATION FORM FOR ELECTION OF DIRECTOR BY SHAREHOLDERS" and delivered at the following address:

The General Manager & Secretary, Central Board,
State Bank of India, Corporate Centre,
19th Floor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road, Mumbai – 400 021.

Nomination form and Declaration & Undertaking received after the closing time will be rejected.

- Any Shareholder, having not less than 5000 unencumbered shares (as on the date of filing the nomination) registered in his/her own right, either as sole holder or as first named holder when jointly held, in the Register of Shareholders of the Bank and not disqualified under the provisions of Section 19A and 22 of the State Bank of India Act, 1955 and Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949 is eligible to contest the election.
- If the number of valid nominations exceed four, the voting for election will be held at the General Meeting of shareholders to be held on Monday, the 19th June, 2023 at "State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 (Maharashtra) at 3.00 p.m.
- Any Shareholder, other than the Central Government with 50 or more shares, registered in his/her own right, either as sole holder or as first named holder when jointly held, in the Register of Shareholders of the Bank for a minimum period of 3 months prior to the date of the General Meeting and who continues to be a shareholder with minimum 50 shares in the Register of the Bank's shareholders as on the date of the Meeting is eligible to vote in the Election.

NOTES:-

(i) PROXY FORM & ATTENDANCE SLIP.

The Proxy Forms and Attendance Slips for eligible shareholders are available in the Secretariat of Chief General Managers of Bank's Local Head Offices, and Bank's website: www.sbi.co.in or <https://bank.sbi> under the link Investor Relations → Shareholder and Bondholder Information and also at the following offices:

- Shares & Bonds Department, State Bank of India, Corporate Centre, 14th Floor, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021. Telephone: 022-22740841 – 848.
- M/s. Alankit Assignments Ltd., Unit: State Bank of India, Alankit Heights, 205-208, Anarkali Complex, E/7, Jhandelwala Extension, New Delhi - 110055 Telephone: 011-42541234, 7290071335

Attendance Slips will also be available at the venue of the General Meeting on 19th June, 2023.

Duly executed proxy forms, together with power of attorney or other authority (where applicable) under which it is signed, must be received at the Bank's Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, Madame Cama Road, Mumbai – 400 021 on or before 6th June, 2023 by 5.00 p.m.

(ii) AUTHORIZED REPRESENTATIVE.

Shareholder, being a company, authorizing any of its officials or any other person to act as their representative in the General Meeting should deposit a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative,

certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which such resolution was passed, at any of the following two offices of the Bank, on or before 9th June, 2023 by 5.00 p.m.

- (i) Shares & Bonds Department, 14th Floor, State Bank of India, Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Mumbai – 400021.
- (ii) Secretariat of the Chief General Manager, State Bank of India, Local Head Office-Mumbai Metro, Synergy, “C 6”, G Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051.

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400 021

DINESH KUMAR KHARA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./51/2023-24]